

### HONDA

Honda India Power Products Limited Head Office & Works Plot No. 5, Sector-41, (Kasna) Greater Noida Industrial Development Area, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201310 Tel.: \*91-120-2590 100 Fax: +91-120-2590 350 Website : www.hondaindiapower.com CIN: L40103DL2004 PLC203950 E-mail : ho.mgt@hspp.com

### Ref: HIPP/SE/2021-22/40

October 15, 2021

Corporate Relationship department BSE Limited Registered Office: Floor 25, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai — 400 001

Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G— Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai — 400 051

### Sub: <u>Newspaper advertisement regarding publication of Notice of</u> <u>Extra Ordinary General Meeting Notice</u>

Dear Sir,

In accordance with Regulations 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose copies of the Notice published in 'Financial Express' and 'Jansatta' on 15<sup>th</sup> October, 2021 in connection with the Notice of Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on 10<sup>th</sup> November, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing.

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly.

Thanking you.

Yours truly, For Honda India Power Products Limited,

Sunita Ganjoo Company Secretary and Compliance Officer

Encl. as above.



**FINANCIAL EXPRESS** 

# 12

#### FORM NO. URC-2 बेंक ऑफ़ इंडिया Branch: Sarai Jwalapur 60 Indian Overseas Bank DCB BANK POSSESSION NOTICE Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI Tel.: 01334-252570 **Bank of India** ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) Rachna Building, 4th Floor, 2, Rajendra Place, **POSSESSION NOTICE** (For Moyable/Immovable property) Undersigned the Authorised Officer of the DCB Bank Limited, under the Securitization and of the companies (Authorized to Register) Rules, 2014] Pusa Road, New Delhi -110 008, Whereas The undersigned being the authorized Officer of Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in Phone 011-25758124, Email: iob1997@iob.in 1.Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of Companies Act Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand CORRIGENDUM (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act. thirty days hereinafter to the Registrar at Registrar of Companies for Delhi & Haryana,4t notices on the dates mentioned against account (details of which have been mentioned below) calling upon the 2002, calling upon the borrowers / co- borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi 110019 that (VASUPRADA CONSULTANT This is in reference to the advertisement LLP). a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 as following borrower to repay the amounts mentioned in the notices within 60 days from-the date of receipt of the said amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the published in Financial Express (Eng) and company limited by shares (VASUPRADA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED). notices. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in said notice. Jansatta (Hindi) 09.10.2021 for E-2. The principal objects of the company are as follows: To carry on the business of consultancy general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers Auction Sale Notice wherein it is informed The borrowers and co-borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column advisors, experts and managers in the business of Civil Engineering Services and to carry of conferred on him/ her sub-section (4) of Section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) the business of infrastructure Projects. to the Borrower/ Guarantor and also in no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken Rules, 2002 on this mentioned the date. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to 3.A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company ma public general that in the account of S.No possessions of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers be inspected at its proposed registered office at Flat C-11, CEL Apartments, Vasundhar deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of India for notice conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules, (7) A/c Vibgyor Retail Private Limited is Enclave New Delhi-110096. amounts and interest thereon. The borrowers attention is invited to provisions of subsection (8) of Section 13 of the Act. cancelled from E- Auction Which is Borrower / Co-Borrower Date of Demand Notice Loan Account 4.Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate the in respect of time available, to redeem the secured asset. scheduled to be held on 28.10.2021. objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of DRHLMEE00422254 1. Manoj Kumar 8/02/2019 Date of Date of Name of the Outstanding as Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana) All other terms & conditions will be & DRMBMEE00452152 2. Mrs Manju Description of the Charged asset Demand per Demand Notice possession Pin Code-122050, within twenty days from the date of publication of this notice, with a copy to Borrower/Guarantor remain unchanged. Notice Description of Secured Assets: House No. 18/331, Khasra No 18, Surva-Puram. the company at its registered office. Rs. 16.82.789.79/- 12.10.2021 Borrower: Mrs. Ruby Singh Part of Plot No. D-2, Khasra No. 594M, Raj 05.07.2021 Date : 14.10.2021 Authorised Officer. Shastri Colony, Village Noor Nagar, Meerut, Uttar Pradesh, PIN Code -250002 Dated this 15 of October 2021 Name(s) of Applicant: Vasantha Penmatcha W/o Mr. Vijya Sing and Mr. Vihar Phase-1, Village Jageetpur, Pargana + Interest thereon Place : New Delhi Indian Overseas Bank Date of Possession Amount Demanded: Rs. 25.21.200/-Vijay Singh S/o Mr. Braham Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar. Boundaries: 12.10.2021 (Twenty Five lakh, Twenty One thousand and Two Hundred) North: Road 15 wide, South: Plot No. D-1 Dev East: Part of Plot No. D-2, West : Plot No. D-21 The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the Place : Haridwar aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the Authorised Officer, Bank of India Date: 14.10.2021 DCB Bank Ltd. for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon. POSSESSION NOTICE (for immovable property)Rule 8-(1) POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1) 5 Date : 15/10/2021 Authorised Officer Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline ookin Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act Housing Finance Ltd. (IIHL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of DCB Bank Limited Place : Meerut, Uttar-Pradesh 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to borrowers /co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the The Karur Vysya Bank Ltd., and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the 9 powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower In particular (KVB) Karur Vysya Bank DIVISIONAL OFFICE, No.6, 3rd Floor, said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings 29 and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be with the property will be subject to the charge of IFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. 0120-665121 Smart way to bank Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road, subject to the charge of IIHL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon."The borrower's "The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL Karolbagh, New Delhi - 110 005 attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the HFL\* together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets Advertisement "IIHL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIHL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets. SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 Description of secured asset Total Outstanding Date of Date of Name of the transfer or sale of the secured assets. [Rule 8(1)] Demand Possession Borrower(s) Sonipat, (immovable property) Dues (Rs.) Name of the Borrower(s) Description of Secured Asset (Immovable Property) | Total Outstanding Dues (Rs.) | Date of Date of Faridabad BRANCH Notice Whereas, Rs. 11.85.407/- (Eleven Lakh LUCKNOW Branch All that piece and parcel of :Khewat No. 167, Demand Possession all that piece and parcel of Rs. 18,32,981/- (Rupees The undersigned being the Authorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED Mr. Mukesh, Mr. ad measuring 100 sq.yds, Khatoni No. 222 | Eighty Five Thousand Four Mrs. Banno and Bhukhand No. 18, Khasra no. Eighteen Lakh Thirty Two Notice 13-May-Min. Mustatil No. 65, Kila No. 14 (4-16), 15 Hundred Seven Rupees Only) Dharambir Singh and 11-Oct-21 under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Mr. Kallu 41/42 and 43, Naubasta Khurd, Thousand Nine Hundred 2021 21-DEC 09-0CT-2021 (7-13), Mustatil No. 66, Kila No. 10/1 (4-0), Mrs. Omwati Devi Security Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers Ward Faizullaganj, Lucknow, Eighty One Only ) Uttar Pradesh Pinocde: 226021 (Prospect no. 842267) 2020 11/1 (1-10), 11/2 (3-10), MaujaTilpat, Tehsil (Prospect No 846059) conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) & Distt. Faridabad, Harvana. Rules, 2002 issued a demand notice dated 13.04.2021 calling upon the Mr. Sunil, Mrs. Shalini, 17-FEB 09-0CT-2021 all that piece and parcel of House Rs. Rs.11,92,256/-Arpit Goyal, M/S Goyal All that piece and parcel of: Property no.389 Prospect No.825877 Rs. borrower; (1) M/s Jangid Krishi Eng Works Prop: Mr Sunil Kumar Sharma, G-27, D. on Plot No. 1, measuirng 55.762 (Rupees Eleven Lakh Ninety area admeasuring 93 sq.yrds, Ward no.9, Mrs. Guddi 2021 38,75,940/- (Rupees Thirty Eight Travels, Parmod Sq. Mtrs, Plot/Khasra No. 124 Two thousand Two hundred Sotanala Behror, Alwar - 301 701 also may be at B-41, RIICO Housing Board, N H No.8, Lakh Seventy Five Thousand 19-July---Bhimsain Colony Ballabgarh, Faridabad, Kumar , Rohit Goyal (Prospect No 854567) 11-Oct-21 Minjumla, Ward - Kanhaiya Fifty Six Only) Bheror, Alwar – 301 701 (2) Mrs. Sunita Sharma, R/O 26-A, Kartarpura Road No.4. Call and Seema Goyal Haryana,India. Nine Hundred Forty Only) 2021 Madhavpur, Village-Madhavpur, Prospect No. 943974 Rs. Behind Gayatri Public School, Nandpuri, Jaipur - 302 to repay the amount mentioned in (Prospect No. 825877 Vishal City, Lucknow, Uttar and 943974) 5,17,532/-(Rupees Five Lakh the notice being Rs. 43,45,601.55 (Rupees Forty Three Lakhs Forty Five Thousands Pradesh Seventeen Thousand Five Six Hundred One and Paisa Fifty Five) within 60 days from the date of receipt of the said Hundred Thirty Two Only) AII For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office :- 1017, Tenth Floor, Cyber Heights, TC 2/2 and TC 5/5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010 /Or Corporate Office : Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. notice. Mr. MANISH KUMAR, All that piece and parcel of UNIT NO-31, Rs. 6,18,605/- (Rupees Six Lakh The borrower having failed to repay the entire notice amount, notice is hereby given to Eighteen Thousand Six Hundred Mrs. SHEETU VERMA admeasuring super area of 407.31 sq.feet, Place: LUCKNOW Date: 15-10-2021 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL) the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession GROUND FLOOR, COMMERCIAL BLOCKand M/S KING Five Only) 12-May-11-Oct-21 of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her 5 (Prospect No 836706) A OMAXE PLAZA, SECTOR-8, VILLAGE 2021 REWLI, KUMASPUR, SHAHPUR TURK & RAGHAV under Sec. 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 13th day of Regd. Office: Office No. 36, 4th Floor, Alankar Plaza, Central Spine, RAIPUR, SONIPAT, HARYANA 131001 PRODUCTIVITY Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302 023 P: +91-141 2235760 - 61 Lz. October of the year 2021. E-mail : rammingmass@gmail.com | Website : www.rammingmass.com For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Sector 15 GI, Scf No 51, Faridabad, Haryana 121007 ENHANCERS LTD. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal Subhash Chowk GI, Office No-101, First Floor, Pawan Mega Mall, Sonipat, Haryana 131001/or Corporate Office : Plot No. 98, Phase CIN: L27109RJ2009PLC030511 with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of THE (Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.) IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. KARUR VYSYABANK LIMITED for an amount Rs. 43,45,601.55 (Rupees Forty Three Statement of Consolidated & Standalone Un-Audited Financial Result for the Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited Place: Faridabad, Sonipat Dated: 15/10/2021 Lakhs Forty Five Thousands Six Hundred One and Paisa Fifty Five) and interest Quarter/Half-Year Ended 30th September, 2021 No. A. 12026/3/2021-Admn.I (Rs. In Lacs except per share data)

printer and a second	to redeem the secured assets which reads as below: RIPTION OF SECURED ASSETS	
District admeasuring approxim	41, RIICO Housing Colony, Near NH -08, Behror, Alw nately 216 sq. mtrs and bounded on	
East: Plot No: B-42 North: Road 10 mtr wide	West: Plot No: B-40 South : Plot Nos: A-43 and A-4	Total Income from Operation
Place: Jaipur Date : 13.10.2021	AUTHORIZED OFFICE THE KARUR VYSYA BANK LIMITE	R Exceptional and/or Extraor
$\cap$	The Karur Vysya Bank Ltd.,	Net Profit for the period be (after Exceptional and/or Extraordinary items# )
KVB Karur Vysya Bank		Net Profit for the period aft
	Karolbagh, New Delhi – 110 005	(after Exceptional and/or Extraordinary items# )
SECURITY INTER	Karolbagh, New Delhi – 110 005 REST (ENFORCEMENT) RULES, 2002	
Whereas,	Karolbagh, New Delhi – 110 005 REST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 [Rule 8(1)]	Extraordinary items# ) Total Comprehensive Incor the period Equity Share Capital (Face
Whereas, The undersigned being the Aut under the Securitisation & f Security Interest (Second) Ac	Karolbagh, New Delhi – 110 005 REST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 [Rule 8(1)] thorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITE Reconstruction of Financial Assets And Enforcement ct, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powe	Extraordinary items# ) Total Comprehensive Incom the period Equity Share Capital (Face per share Rs. 10/-) of Reserves (excluding Reval per shown in the /
Whereas, The undersigned being the Aut under the Securitisation & f Security Interest (Second) Ac conferred under section 13(12) Rules, 2002 issued a dema borrower, (1) M/s Thought Eng	Karolbagh, New Delhi – 110 005 REST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 [Rule 8(1)] thorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITE Reconstruction of Financial Assets And Enforcement ct, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of power read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement	Extraordinary items# ) Total Comprehensive Incom the period Equity Share Capital (Face per share Rs. 10/-) Reserves (excluding Reval ers Reserve) as shown in the / Balance Sheet of the previ he Earning Per Share (of Rs. A, Basic as well as Diluted

notice being Rs 50,73,554.16 (Rupees Fifty Lakhs Seventy Three Thousands Five Hundred Fifty Four and Paisa Sixteen only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned being the Authorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement)

Rules, 2002 issued a demand notice dated 13.07.2021 calling upon the borrower, (1) Mr Sunil Kumar Sharma, S/o Jagdish Prasad Sharma, 26-A, Kartarpura, Road No.4, Beind Gayatri Public School, Jaipur - 302 019 (2) Mrs Sunita Sharma, W/o Mr Sunil Kumar Sharma, 26-A, Kartarpura, Road No.4, Beind Gayatri Public School, Jaipur - 302 019 to repay the amount mentioned in the notice being Rs.32,15,846.00 (Rupees Thirty Two Lakhs Fifteen Thousands Eight Hundred Forty Six only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the entire notice amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec.13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 13th day of October of the year 2021.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED for an amount Rs. 82,89,400.16 (Rupees Eighty Two Lakh Eighty Nine Thousand Four Hundred and Paisa Sixteen only) and interest thereon.

calor ciging runo modsana roarr	nandred and False distoon ding and interest alordon.	1.00			SCI
	TION OF SECURED ASSETS Nandpuri Colony, Hawa Sadak, Jaipur admeasuring nd bounded by: South : 40' wide Road	S. No.	Name of borrower / A/c No. & Sureties	Amount Recoverable On 30.09.2021 + Int + Legal Expenses	
East : PlotNo: F-49-A,	West : 30' feet road and Plot No: F-43	1.	L- A/c - 10058 Sh.	Rs.	C-44, I Floor v
Place: Jaipur Date : 13.10.2021	AUTHORIZED OFFICER THE KARUR VYSYA BANK LIMITED	2	Neerajjain (Pro. M/s Sambhav Textiles) Surety (I) Manoj Jain	3082877.00	Illaqua
KVB Karur Vysya Bank Smart way to bask	The Karur Vysya Bank Ltd., DIVISIONAL OFFICE, No.6, 3rd Floor, Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road, Karolbagh, New Delhi – 110 005	2.	Surety (II) Renú Jain L-A/c -2203 Smt. Sheetal Singh (Pro. M/s We Care Fitness)	25350763933	Prope admea Yards Garde
SECURITY INTERE	ST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 [Rule 8(1)]		Surety (I) Prateek Singh, Surety (II) Mohit Singh		Shahd
Whereas,	[Kule of 1)]	3.	L-A/c -2203 Smt. Sheetal Singh /Pm M/s	Rs. 1384891.47	Gym ( Cycle-

Place : Jaipur

Date: 14th October, 2021

Particulars	Standalone					Gonsolidated				
	Quarter Ended		Half Year Ended		Quarter ended	Quarter ended	Half-Year ended	Year ended		
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.03.202	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total Income from Operations (Net)	2482.99	2102.11	1492.15	4585.10	2405.89	2464.04	2086.72	4550.76	6467.23	
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items# )	602.48	575.28	268.47	1177.76	344.51	582.98	559.73	1142.71	1221.45	
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items# )	602.48	575.28	268.47	1177.76	344.51	582.98	559.73	1142.71	1221.45	
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	454.62	428.00	189.86	882.62	248.27	435.12	412.45	847.57	913.92	
Total Comprehensive Income for the period	454.62	428.00	189.86	882.62	248.27	435.12	412.45	847.57	917.95	
Equity Share Capital (Face value per share Rs. 10/-)	1087.63	1087.63	1005.13	1067.63	1005.13	1087.63	1087.63	1,087.63	1087.63	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	(4)	18	-		14	*		5,414.85	
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) Basic as well as Diluted	4.12	3.94	1.89	8.06	2.47	3.94	3.79	7.74	8.99	

e been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on te above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Quarterly/Half-year Financial Results filed with the Stock ation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half-year Financial Results is available on the website viz. www.bseindia.com. The same is also available on the Company website viz. www.rammingmass.com. c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

By Order of the Board
For Raghav Productivity Enhancers Limited Sd/-
Rajesh Kabra
(Managing Director)
DIN: 00935200

## JAIN CO-OPERATIVE BANK LTD. HO: 80, DARYA GANJ, NEW DELHI-110002 Phone: 011-23281827, 9313784974 Email: info@jainbank.com, Web Address: www.jainBank.com

### SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC

Whereas under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 the Authorized Officer has issued following demand notices for the recovery of amount due as mentioned against the name of each borrower / surety / mortgager. Further in exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer have taken the possession of the under mentioned secured assets which are held as securities in respect of Mortgage Loans (I) M/s Sambhav Textiles (II) M/S We Care fitness

Whereas the sale of the secured assets is to be made through Sale Notice for recovery of secured debt due to Jain Co-operative Bank Ltd. as mentioned below:

The Bank intends to sell the property/Gym equipments DETAILED HEREUNDER ON 'AS IS WHERE IS BASIS' THROUGH "SALE BY INVITING TENDERS" for which EMD should be deposited on or before (20.11.2021) by 4 PM:

Sealed Tenders may be dropped in the Box provided at the Branch Premises of the Bank at 80, Darya Ganj, New Delhi-110002, on or before last date of auction i.e 22.11.2021 by 2:30 P.M.

SCHEDULE	OF	THE	SECURED	ASSETS

S. No.	Name of borrower / A/c No. & Sureties	Amount Recoverable On 30.09.2021 + Int + Legal Expenses	Description Of property As per Valuation Report	Reserve Price Earnest Money Deposit	Date and Time of Inspection	Date and time of auction
1.	L- A/c – 10058 Sh. Neerajjain (Pro. M/s Sambhav Textiles)	Rs. 3082877.00	C-44, measuring 32 Sq. Yards, 2nd Floor and 3rd Floor with roof rights, Gali No. 4, North Chhaijupur, Illaqua Shahdara, Delhi-110094	14,90,000.00		
	Surety (I) Manoj Jain Surety (II) Renu Jain			Rs. 1,49,000.00		TO 4.00 PM
2.	L-A/c -2203 Smt. Sheetal Singh (Pro. M/s We Care Fitness)	Rs. 1384891.47	Property bearing no. D-216/3 having one room admeasuring 13ft. X 30ft. Super area 43.33Sq. Yards on ground floor, Shop no. 2, Dilshad Garden, Village Jilmil, Tahir Pur, Illagua	23,40,000.00	18.11.2021 DURING 1.00 P.M. TO 2.00 P.M.	22.11.2021 from 2.30 PM TO
	Surety (I) Prateek Singh, Surety (II) Mohit Singh	·	Shahdara District, Delhi.	Rs. 2,34,000.00	2.00 P.m.	4.00 PM
3.	L-A/c -2203 Smt. Sheetal Singh (Pro. M/s We Care Fitness)	Rs. 1384891.47	Gym equipments-Tread Mill-4, Crossed mill-2, Cycle-2, DVR(Home theater), Dumble-50, Mix Straines, Wrist Machine with weight-1, Back Stretcher-1,1- Boxing Bag(9a) two trs belt,	10,10,000.00	18.11.2021 DURING 1.00 P.M. TO	22.11.2021 from 2.30 PM TO
	Surety (II) Mohit Singh		Dumble-18,Rear delt/pee fly magnine-1, Fit line Machine-1, Hanging grill-1,Banches-2,Ball Small- 5, Ball big-2, Functional (arm extension /arm curl1) mark-10,Dual functional (leg curl leg extension)machine-1, Short down press line chest machine-1,Dual function (full down/low row)machine-1, leg press machine-blue net- 1,Batch press machine-1, linclined press-1, Electronic weight machine-1, Woods almirah-1, Wooden stand-1, Wooden table-1, Box of gym product-9, Fire extingersher-2, Rubber plate-47, Iron rods-11, Wall hanging fan-10, Stepper-9, Water dispenser-1, Wall Clock-1, AC (general) stabilizer-3, Stabilizer-4, Weight lifting belt-7, Wandpe-8, Wheel dumble, Attach almirah in wall- 1, Emergency light-1, Flex, some moding and one bag (plastic) seim machine parts, Toilet cleaner materials-3, abdominal bench, Paper weight, CC TV Camras-3, Invertor-3 with battery-6, RO-1, Chair-1, Washroom mirror, Finall bottle-1, English toilet attach-1, Male toilet-1, Shower-1, Wall fan-1	rxs. 1,04,850.00	2.00 P.M.	4.00 PM
Offic 2. Th inter 3. Th abov letter the A the A forfe 5. Af them	cer shall not be answerable for he sealed covers will be open nding bidders as per the above he aforesaid property shall no ve by way of pay order/ demar r for participation in the bid. Th Authorized Officer, The Earnes he Successful bidder should d horized Officer, and balance bi alted including earnest money. fter opening the tenders, the nselves to enhance the offer p he highest bid will be subject to	any error, misstabled by the Authoriz SCHEDULE OF to be sold below the d draft payable at be said deposit sha st Money Deposite leposit 25 percent d amount i.e. 75% intending bidders rice in the multiple b approval of the Av the right to accept	reserve price mentioned above. Intending bidders ar Dethi and favoring Jain Co-operative Bank Ltd. Draw II be adjusted in the case of successful bidder, otherw d will not carry any interest. of the bid amount (inclusive of EMD) on the same dar within 15 days from the date of confirmation of sale. In may be given an opportunity, at the discretion of the of Rs. 25,000/-; uthorized Officer. or reject any bid or postpone or cancel the auction of	Ganj, New Delhi- re required to depo n on any nationaliz rise refunded on th y of the sale or with n case of default, a a Authorized Offici	110002 in the pre- sit the earnest mo red or scheduled h e same day or lab nin 24-hours time il amounts deposi er, to have inter –	sence of available oney deposit state Bank along with the ar on as decided b as permitted by th ted till then shall b se bidding amone
7. Th and : 8. lift beha 9. Al 10. 1 11. / othe encu 12. (	also to modify any terms and c the dues of the Bank together alf of the borrowers / sureties a Il Statutory dues / attendant ch The sale certificate shall be iss Any other encumbrances are or dues to the government or a umbrances on the property inc On deposit of EMD, the bidde	with all costs, cha arges / other dues sued in the same n not known to the myone else in resp cluding statutory lia	Ile without any prior notice. rges and expenses incurred by Bank or part thereof fore the date fixed for sale, the sale of assets may be including registration charges, stamp duty, taxes etc ame in which the Bid is submitted. Bank. The Authorized Officer or the Bank shall not b ect of the properties. The intending bidder is advised bilities, arrears of property tax, electricity dues etc. attested photo copy of Adhar card and PAN card, pro	cancelled, shall have to be b e responsible for to make their own	ome by the purch: charges, lien, end independent inqu	aser. cumbrances or an uiries regarding th
7. Th and: 8. Iff beha 9. Al 10. 1 11. / othe enc. 12. ( and) 13. I 14. 1 15. T	also to modify any terms and o the dues of the Bank together alf of the borrowers / sureties a Il Statutory dues / attendant ch The sale certificate shall be iss Any other encumbrances are or dues to the government or a umbrances on the property inc On deposit of EMD, the bidde contact number. Further enquiries if any and or This may be treated as STAT The borrowers / sureties / mort	with all costs, cha at any time on or be sued in the same n not known to the nyone else in resp sluding statutory lia r shall submit self the terms and cor <b>CUTORY 30 DAYS</b> Igagers are hereby	rges and expenses incurred by Bank or part thereof fore the date fixed for sale, the sale of assets may be including registration charges, stamp duty, taxes etc ame in which the Bid is submitted. Bank. The Authorized Officer or the Bank shall not b ect of the properties. The intending bidder is advised bilities, arrears of property tax, electricity dues etc.	cancelled, shall have to be b to make their own of of residential at er at the address m TEREST (ENFOR ith up to date intere	ome by the purch: charges, lien, end independent ing dress, bidder nar entioned above. CEMENT) RULE est and ancillary e	aser. cumbrances or an uiries regarding th me, mobile numbe S

# **Government of India** National Institution for Transforming India (Administration-IA Section)

NITI Bhavan, Sansad Marg, New Delhi- 110001.

Subject: Recruitment of 01 (One) post of Senior Lead/Lead in Flexi Pool of NITI Aayog on deputation (including short-term contract) /contract basis in Human Resources area.

Government of India, National Institution for Transforming India (NITI Aayog) invites applications for 01 (One) post of Senior Lead/Lead in the area of Human Resources (HR) from:-

- a) Eligible officers working in the Central Government / Departments / State Governments / Union Territories (including their attached and subordinate offices) Universities / Recognized Research Institutions / Public-Sector Undertakings / Semi-Government, Statutory or Autonomous and other Non-Government bodies on deputation (ISTC) basis.
- b) Individuals working at comparable levels in Private Sector Companies, Consultancy organisations, International/Multinational Organisations on contract basis.

SI	Name of the Post	Level and Pay Matrix for	Consolidated Pay for
No		Deputation (ISTC)	contractual appointment*
1.	Senior Lead (Senior Adviser)	Level-15 : Rs.182200-224100	Rs. 330000/-
2.	Lead (Adviser)	Level-14 : Rs.144200-218200	Rs. 265000/-

2. The details relating to the post as well as the requisite eligibility conditions and the procedure for applying for this post are available on NITI Aayog's website **niti.gov.in** under the link https://niti.gov.in/career/vacancy-circular.

3. The closing date of receipt of application in NITI Aayog will be 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

Sd/-

(G. Nagarajan)

Under Secretary (Admn.IA & Rectt.) Ph. No. 23096812

# HONDA

## **Honda India Power Products Limited**

(formerly known as Honda Siel Power Products Limited) Regd. Office: 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi -110025

CIN: L40103DL2004PLC203950

Website: www.hondaindiapower.com | E-Mail: ho.legal@hspp.com

### Notice is hereby given that :

davp 54102/11/0002/2122

- . The Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the members of Honda India Power Products Limited will be held on Wednesday, November 10, 2021 at 11:00 a.m. IST to transact the business, as set out in the Notice convening the EGM.
- . The Company has sent the Notice convening EGM on October 14, 2021, through electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company/ depositories in accordance with the Circulars issued by the MCA vide

The undersigned being the Authorized officer of THE KARUR VYSYA BANK under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforce Security Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enfo Rules, 2002 issued a demand notice dated 12.04.2021 calling up borrower, (1) Mr Rajeev Kumar Sanghi, S/o Mr Ramesh Chand Sanghi, C-133 Nagar, Ajmer Road, Jaipur - 302 019; (2) Mrs Sunita Sanghi, W/o Mr Rajee Sanghi, C-133, Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur - 302 019; (3) Mr Sanjee Sanghi Ramesh Chand Sanghi, C-133, Nirman Nagar, Aimer Road, Jaipur - 30 repay the amount mentioned in the notice being Rs. 75.00.563.28 (Rupees Five Lakhs Five Hundred Sixty Three and Paisa Twenty Eight only) within 60 d the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the entire notice amount, notice is hereby the borrower and the public in general that the undersigned has taken poof the property described herein below in exercise of powers conferred on under Sec.13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 13 October of the year 2021.

\*The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section Act, in respect of time available, to redeem the secured assets which reads as b

(8) If the dues of the secured creditor together with all costs, charges and ( incurred by him are tendered to the secured creditor at any time before the date sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by the creditor, and no further step shall be taken by him for transfer or sale of that asset."

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned n with the property and any dealings with the property will be subject to the charge KARUR VYSYA BANK LIMITED for an amount Rs. 75.00,563.28 (Rupees Five Lakhs Five Hundred Sixty Three and Paisa Twenty Eight only) and interest

BRIEF DESCRIPTION OF SECURED ASSETS Item No.1 Residential Plot No: 1541, Omaxe City, approximately admeasuring 499.69 Jaipur, and bounded on North : Plot No: 1540 South: Road East : Plot No: 1530 West : Road Item No.2 Residential Plot No: 1626, Block No: 67, Omaxe City, Sarangpura Village, Ja bounded on North : Plot No: 1625 South: Plot No 1627 East : Plot No: 1605 West : 12 mt wide Road AUTHORIZED O Place: Jaipur PhanellePexp.epapr.in THE KARUR VYSYA BANK I

General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 read with Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No.22/2020 dated June 15, 2020 and Circular No.33/2020 dated September 28, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRIP 2020/79 dated May 12, 2020. The Notice convening the EGM is available on the website of the Company at www.hondaindiapower.com, the websites of BSE & NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the EGM using electronic voting system ("e-voting") provided by CDSL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on (Wednesday), November 03, 2021 ("cut-off date"), . The remote e-voting period commences on (Sunday) 07.11.2021 (9.00 am IST) and ends on (Tuesday) 09.11.2021 (5.00 pm IST). During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the EGM and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the EGM. The voting lines shall remain open for 15 minutes after conclusion of the EGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM but shall not be entitled to cast their votes again. Those members whose e-mail IDs are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting & for registering their e-mail ids are requested to send required details and documents as described in the EGM Notice to Company's e-mail ID at ho.legal@hspp.com or to RTA's e-mail ID at info@masserv.com. . Mr. Tanuj Vohra of TVA & Co., LLP, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-voting and voting at the EGM, in a fair and transparent manner. . The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.hondaindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. . Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of EGM and holding shares as at the cut-off date i.e. November 03, 2021 shall be entitled to vote. Members already registered with CDSL for remote e-voting can use their existing password for casting their vote. If a Member has forgotten his login password then he/she can visit the website www.evotingindia.com then click on Shareholders, enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password and enter the details as prompted by the system. First time user can enter his/her 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department, Date of Birth and Dividend Bank Details as recorded in his/her demat account. After entering these details appropriately, the member can click on "SUBMIT" tab. ). In case of queries/grievances with regard to electronic voting Members may kindly refer to the 'Frequently asked questions (FAOs) for Members' and e-voting manual available at the downloads section of www.evotingindia.com or may also contact at 1800-200-5588/022 22728588 or to Mr. Sharwan Mangla, General Manager & Compliance Officer, Mas Services Limited , Unit: Honda India Power Products Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110020, Ph:- 011-26387281/82/83, Fax:- 011-26387384, email:- info@masserv.com, website : www.masserv.com By order of the Board

		by order of the board
		for Honda India Power Products Limited
		Sd/-
Place : New Delhi		Sunita Ganjoo
Date : October 14, 2021	New Delhi	Company Secretary

### 10 जनसत्ता, 15 अक्तूबर, 2021

व्यवसाय करना।

है।

#### प्रपत्र सं. युआरसी-2 पहचान की अपील प्ररूप संख्या आईएनसी–26 कब्जा सूचना DCB BANK शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सुचना देने के लिये विज्ञापन (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधि 30 के अनुसरण में } एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है धनियम 2002 के अंतर्गत डीसी प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में] बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभुति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 वे केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 366 की उप–घारा (2) कि एक व्यक्ति जिसका नामः नामालूम, पिता उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना उक्त अनुपालन में कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर कॉलम नं. 3 में वर्णित ऋणधारक/सह-ऋणधारक को प्लेस, नई दिल्ली-110019 में रजिस्ट्रार के पास इस सचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्त तीस और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। का नामः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि (वसप्रदा के मामले में ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक कॉलम नं. 6 में वर्णित इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वार कंसल्टैन्ट्स एलएलपी) एक एलएलपी को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी 317 लगभग 30-40 वर्ष, लिंगः पुरूष, कदः 5 फुट ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ रित ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये। (वसुप्रदा पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे कंसल्टैन्टस प्राइवेट लिमिटेड) (CIN: U36996DL2008PTC175585) 3 इंच, रंगः गेहुँआ, शरीरः पतला, पहनावाः कॉलम नं. 4 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: नागरिक अभियांत्रिकी सेवाओं के व्यवसाय में परामर्श दाता, जिसका पंजीकत कार्यालयः दकान नं. 28, ग सूचना तिथि सलाहकार, विशेषज्ञ तथा प्रंबधकों का व्यवसाय करना तथा संरचनात्मक परियोजनागओं का डीएलएफ सांखथ स्वचायर एमएलसीपी लाल रंग की हाफ पैन्ट पहने है, का शव दिनांक 02.10.2021 को 66 DRHLMEE00422254 08.02.2019 सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023 प्रस्तावित कम्पनी के डाफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति फ्लैट नं. सी-2. श्रीमती मंजू में हैं, के मामले में फुटा रोड, जाफराबाद, मैट्रो पिलर नं. १६४ के समीप, दिल्ली में में थाना DRMBMEE00452152 ....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता 11, सीईएल अपार्टमेंट्स, वसुन्धरा एन्क्लेव, नई दिल्ली-110096 में कार्यालय में देखी जा सकर्त एतदद्वारा सार्वजनिक सुंचना दी जाती है कि यह कंपनी प्रतिभत परिसम्पत्तियों का विवरणः मकान<sup>!</sup>सं 18/331, खसरा नं. 18, सूर्या पुरम सीलमपुर, दिल्ली के क्षेत्र में पाया गया। इस संदर्भ में DD No.04-A केन्दीय सरकार के संगक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 एतदुद्वारा सचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वं मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-250002 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि <del>कब्जा की तिथि</del> <mark>मांग की गई राशि:</mark> रु. 25,21,200/- (रु. पच्चीस लाख इक्कीर जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय dated 02.10.2021 के तहत थाना सीलमपुर, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय 12.10.2021 हजार दो सौ मात्र) राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर जिला रथानांतरित करने के लिए 08 अक्टूबर 2021 को है। अगर किसी को इस शव के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृप्या गुड़गाँव, (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें। विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है वे उक्त सम्पत्ति का व्यवसाय नह आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष करें तथा उक्त सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां ऊपर वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए डीसीबी आज, दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 को आवेदकों का नामः वसन्था पेनमटच संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम झापन में संशोधन निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सचित करें। बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। की पष्टि की मांग की गई है । थानाध्यक्ष तिथि: 15.10.2021 प्राधिकत अधिकारी कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण द करूर वेस्य बेक लि थाना सीलमपूर, दिल्ली स्थानः मेरठ, उत्तर प्रदेश डीसीबी बैंक लिमिटेड से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, (KVB) Karur Vysya Bank DP/1111/NE/2021 फोन नं: 011-22562035, 8750870721 यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड Smart way to bank कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में करोलबाग, नई दिल्ली-110005 शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र रआरटा हाउासग फाइनास (इाडया) ालामटड Criminal Courts, Ludhiana (पूर्व में एआरटी एफॉर्डेबल हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड विदित) जेसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 नियम 8(1) ART In The Court Of Ms. Shweta Dass कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय पंजी. कार्यालय: 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन JMIC Ludhiana Peshi : 26-11-2021 शाखा कार्यालय: 49, उद्योग विहार, फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा-122015 निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैक CNR NO: PSLD03-010293-2019 चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 sublication notice for proclamation under section कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दुसरा तल, सरफैसी अधिनियम. 2002 की धारा 2(1) (एम) (iv) के अंतर्गत एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड, एक वित्तीय संस्थान जिसका पंजीकृत कार्यालय 32 OR PC Complaint R/w sec-138 of NLIACT के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली--107, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में है (यहां के बाद ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के नाते Avon Cycles Limited Vs. 110003 पर पंजीवत ढाक द्वारा भेज सकता है और अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.4.2021 जारी कर ऋणधारकों (1) मै. जांगिड़ कृषि अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित ऋण खाता संख्या जिसे 31.8.2021 को एनपीए घोषित किया गया था, में वर्तमान सुचना दे रहे हैं। M's Durga Yo Bykes इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित इंजी. वर्क्स, प्रॉप.: श्री सुनील कुमार शर्मा, जी-27, डी, सोतानाला बहरोर, अलवर-301701, Notice To: 1. M/s Durga Yo Bykes, Opp. पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें। पतिभत परिसम्पत्तियं बकाया ऋणधारक एव BUISIVES UC साथ ही: बी-41, रिको हाउसिंग बोड, एनएच-8, बहरोर, अलवर-301701, 2) श्रीमती द्कान नं. 28, डीएलएफ साउथ स्क्वायर Bihani Petrol Pump, Suratgath Road, सं देयता सह-ऋणधारक का सह-ऋणधारक का का पता 13(2)एमएलसीपी सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023 सुनीता शर्मा, निवासीः 26-ए, करतारपुर, रोड नं. 4, गायत्री पब्लिक स्कूल के पीछे, नंदपुरी, Stigategareger, Rejesthen Through Its की तिथि नाम पता Prop Aruni Godara 2, Aruni Godra, Prop Of आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से जयपुर-302 को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. XKNL058 424775/ F. 90. als खेवत नं. 2637, खतोनी नं. 3807, मुन् M/s Durga Yo Bykes, Opp. Sihani Petrol रित् ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड 43,45,601.55 (रु. तैंतालिस लाख पैंतालिस हजार छह सौ एक एवं पैसे पचपन मात्र) वापस 170000865 चौदह लाख चौबीस एवं चन्दर पति एवं 06, असन्ध, न्यू 196, किला नं. 3/310(121), उसका 1/4 शेय Pump Suratgarh Road, Sriganganagar-हस्ता / -एवं अर्थात 3 मरले में शामिल आवासीय प्लॉट क लौटाने का निर्देश दिया था। सोनू कुमार हिमालय पब्लिक हजार सात सौ 335001, Rejasthan दिनांक : 14.10.2021 अरुण शर्मा (निदेशक) LXKNL06918-स्कुल के सामने. सम्पत्ति जो ग्राम असंध वार्ड नं. 03, तहसील पचहत्तर मात्र) दोनों ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम स्थानः नई दिल्ली Whereas if his taken proved to the satisfaction of डीआईएन: 02043330 190005002 असंध, जिला करनाल, हरियाणा (माप 3 मरले) करनाल, हरियाणा-खाताओं में Fe court Put you, five accused above rearried जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 13 अक्टूबर 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त (90 वर्ग याईस) में स्थित है। 132039 3.9.2021 को। connot be served in the ordinary way of service. प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 प्ररूप ए terica this productation under section EQ CRPC की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां सार्वजनिक घोषणा tereby is assed against you with a direction that संबोध्य व्यक्तियों को एतदुद्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा एएचएफएल यहां वर्णित iou should appear personally before this court or नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। (भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यह सूचना 26.11.2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे एएचएफएल को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के प्रति उपचार रहित है। the date of publication of this proclamation. Take ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8 आरोह फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above sold case will के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। 43.45.601.55 (रु. तैंतालिस लाख पैंतालिस हजार छह सौ एक एवं पैसे पचपन मात्र) तथा आरोह फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट व्यक्ति का नाम be heard and determined as per law, in your हस्ता उस पर ब्याज के लिये द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। absence, given under my hand and the seal of the कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि 20 मार्च 1997 प्राधिकत अधिकारी तिथि: 14.10.2021 sourt. for details legen te: ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट + Pars: 19 ighoourtched.pov in/itra=district\_notics एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड स्थानः करनाल कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है Sdistrict-leichiana JMIC Ludhiana कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देवता U65929DL1997PTC086017 प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी निगोही-शाहजहाँपुर 'IMPORTANT' बी-41, रिको हाउसिंग कॉलोनी, एनएच-08 के निकट, बहरोर, अलवर जिला माप लगभग कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्टीकृत पंजीकृत कार्यालयः १०, सागर अपार्टमेंट्स , Whilst care is taken prior to 216 वर्ग मी. में निर्मित सम्पूर्ण आवासीय सम्पत्ति, चौहदीः कार्यालय और प्रधान कार्यालय ग्राक-276सा- 276 /लेखा/क्षे0प0/2020 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली – 110001 नाक-10,10,2021 अल्प कालीन निविदा सूचना acceptance of advertising पूर्वः प्लॉट नं. बी-42, पश्चिमः प्लॉट नं. बी-40 (यदि कोई हो तो) का पता copy, it is not possible to verify

तिथिः	13.10.2021	
स्थानः	13.10.2021 जयपुर	

उत्तरः 10 मी. चौड़ा रोड

021			प्राधि	कृत	अधिकारी
	द	करुर	वैस्य	बैंक	लिमिटेड

दक्षिणः प्लॉट नं. ए-43 तथा ए-44

ľ		प्र <u>पत्र ए</u>
1	[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षम	<b>निवन्न घोषणा।</b> ता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध
	~~~~~ 그는 그 것 같아요. 것 같아요. 것 같아? 것 것 같아요. 것 같아요. 것 같아?	ायमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
-		ट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाथ
		त विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	न्यासा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	16 अप्रैल 2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4,	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72900DL2008PTC176819
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पहली मंजिल, एफ—18, प्रीत विहार, विकास मार्ग, विल्ली —110092
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	13 अक्टूबर 2021
Ţ.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	11 अप्रैल 2022
8,	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में	नवजीत सिंह
	कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफ्रेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	षंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00314/2017-18/1057
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पताऔर ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	218—ए, पहली मंजिल, दुकान नंबर 04, रामा मार्केट, पीलमपुरा, दिल्ली—110034 ईमेल : navjit92ca.ip@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का. पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल	218–ए. पहली मंजिल, दुकान नंबर 04. रामा मार्केट पीतमपुरा, दिल्ली–110034 ईमेल : ncpl.cirp2021@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	27 अक्टूबर 2021
12.	अंतरिमसमाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर जपालक वै	(क) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/download (ख) भौतिक पताः लागू नहीं

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने **दिनांक 13 अक्टूबर 2021, को न्यासा** कम्युनिकेशरर प्राइवेट लिमिटेड केविरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने काआवेश वियाहे। न्यासा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 27 अक्टूबर 2021 को थवा इसके पूर्व में अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तत करने व

दावे के फर्जी अथवा सामक प्र	माण की प्रस्तुति दंखनीय होगी ।	नवजीत सि
दिनांक : 14.10.2021 स्थान : दिल्ली	अंतरिंग समाधान प्रोफेशनल, न्यास पंजीकरण सं.: IBBI/IPA	

6		द करूर वैश्य बैंक लि.
KVB)	Karur Vysya Ban	🗼 मंडल् कार्यालय, सं. 6, तीसरी मंजि्ल,
2	Smart way to ban	📷 सामन : मट्रा ापलर न. ८०, पूसा राड,
		करोल बाग, नई दिल्ली-110 005

ीकृत ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदाये दिनांक 27.10.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं। इच्छुक ठेकेदार पंजीकृत डाक से भी निविदा उक्त दिनांक व समय तक प्रेषित कर सकते हैं।जोकि दिनांक 28.10.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष (जो उपस्थित होना चाहते हैं) खोली जायेगी। इच्छुक पंजीकृत निविदादाता जोकि आयकर,वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हो निविदा फार्म निविदा प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 26.10..2021 पूर्वान्ह 11.00 बजे तक विकास खण्ड निगोही कार्यालय से निविदा फार्म शुल्क रू0 500.00(पॉच सौ) मात्र नकद जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित दिनोंक व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते विकास खण्ड पर निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

15वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को उक्त योजनान्तर्गत अन्टाईड एवं टाईड ग्रान्ट की धनराशि से कराये जाने हेत् समस्त

### निविदा हेतु कार्यों का विवरण

τις 10	क्षेत्र्यं बेट माम	वार्व वर्ष अनुमर्गित (तारा २०व्रे)	सिविश प्रेर म्हल्य	धर्वेष्ठर प्रन्त्वहि ३.मतिक्षा	कार्य पूर्म होने वरे स्वयि	
1	2	3	4	5	1.6	
	धंचम राज्य विस	Service in	5.5.5	Salara		
1	िवित्रसंत परितन में नहन्नह विवरसा अधिवन्ती अन्नवना की भरम्मत का वहते	9.56	560.00	20000.00	03 110	
2	डाम परस्तेमा खातीलपुर में भनोज के शवान से दिय भन्दिर एक इन्टरलाक रोड का निर्माण कार्य 77 में20	6.56	560.00	14000.00	03 NII	
	केन्द्रीय कित्त(टाईड फण्ड)	Salar I		Sec.		
1	राम च्याराज्युर में राजेन्द्र के प्लंड तो कल्लू कोरी के मकल तक प्रकार गोला  निर्माण 90 नी0	8.056	500.00	16150.00	43 NE	
2	गाम जनकली में माहिद के बज तो नहीं तक पर्कत माला निर्माण 75 मेंठ	4.38	500.00	85600.00	03.470	
	केन्द्रीय वित्त(अन्टाईड फण्ड)	a succession	100000000	with the second se	are freehouse and	
1	न्नाम मत्यूना विश्व में जललोत के मकान हो रामदेश यथी के मंत्रवेन तक इन्टरलाक   येद: निर्मात 180 मेंद	3.97	500.00	20000.00	03.88	

#### मख्य नियम व शर्ते-

1. प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि को एफडी.आर./एन.एस.सी. के रूप में जो कि खण्ड विकास अधिकारी निगोही-शाहजहॉपुर के पक्ष मं बन्धक हो को संलग्न किया जाय।

2.जमानत धनराशि निविदा की 10 प्रतिशत होगी,जो कि निविदा स्वीकृति के उपरान्त धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत को समायोजित करते हये शेष 8 प्रतिशत के एफडी.आर./एन.एस.सी. के रूप में खण्ड विकास अधिकारी निगोही के पक्ष में बन्धक कराकर जमा करना होगा।

3.धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि को नगद व चेक के रूप में स्वीकार नही किया जायेगा।

4.पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा प्रेषित की जाने वाली निविदा ही स्वीकार की जायेगी।

5.किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त किये जाने का अधिकार क्षेत्र पंचायत निगोही/अधोहस्ताक्षरी को होगा। खण्ड विकास अधिकारी, निगोही-शाहजहॉपुर। 6.समस्त कार्य उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही कराये जायेंगे।

## जैन को-ऑपरेटिव बेंक लि.

मुख्यालयः ८०, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 फोनः 011-23281827, 9313784974 ईमेलः info@jainbank.com, वेब पताः www.jainBank.com

#### आम जनता को बिक्री सुचना

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) के तहत, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक ऋणधोरकों. गारंटरों/माटगैंजरों के नाम के सामने देय राशि की वसूली के लिए निम्नेलिखित मांग नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है जो माटगैंज ऋणों (i) मैसर्स संभव टेक्सटाइल्स (ii) मैसर्स वी केयर फिटनेस, के संबंध में प्रतिभुतियों के रूप में रखी गई है।

जबकि जैन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को देय जमानती ऋण की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री, बिक्री नोटिस के माध्यम से की जानी है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया हैः

बैंक ''निविदाओं को आमंबित करके बिक्री'' के माध्यम से 'जहां है जैसा है' के आधार पर यहां विस्तुत संपत्ति/जिम उपकरण बेचने का इरादा रखता है, जिसके लिए ईएमर्ड को (20-11-2021) शाम 4 बजे या उससे पहले तक जमा किया जाना चाहिए।

मुहरबंद निविदाएं बैक के शाखा परिसर 80, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 में नीलामी की अंतिम तिथि यानी 22-11-2021 को दोपहर 2:30 बजे तक य उससे पहले दिए गए बॉक्स में डाली जा सकती है।

मांग की जाती है।	क स्थारकर्तका सम्र सात संस्था	30.09.2021 को	मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का विवरण	आरक्षित मल्य	निगेश्रण को	नीलामी की तिथि।	TIONIT	-
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं ।		वसूली योग्य राशि		बयाना राशि	तिथि और समय	invit in shi tan s	HONE	1
किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि से. 12 के समक्ष सूचीबदा है, अधिकृत प्रतिनिधि के	+	+ ब्याज + कानूनी व्यय					and the second states and the second	
रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समझ सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अझमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपञ्च सीए में निदर्शित करेगा ।	<ol> <li>एल-ए/सी-10058 श्री (प्रो. मेसर्स</li> </ol>	रु.	सी-44, 32 वर्ग गज, छत के अधिकारों के साथ दूसरी मंजिल			22.11.2021	होण्डा इंडिया पावर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	
दावे के फर्जी अश्रवा ग्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंखनीय होगी। हस्ता 🗸 — नवजीत सिंह	नीरौन संभव टेक्सटाइल) जमानत (I) मनोज जैन	3082877.00	और तीसरी मंजिल, गली नंबर 4, उत्तरी छज्जूपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094	रु. 1,49,000.00		दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.00 बजे	(पूर्व में होण्डा सिएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड)	
विनांक : 14.10.2021 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, न्यासा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	जमानत (I) रेणु जैन		शाहदरा, दिल्ला- 110094		क दारान दापहर 12.00 बजे तक		पंजीकृत कार्यालय : 409, डीएलएफ टॉवर बी, जसोला कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110	10025
स्थान : दिल्ली यंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00314/2017-18/10578	2. एल-ए/सी-2203 श्रीमती शीतल सिंह	रु.	सम्पत्ति की संख्या डी–216/3 जिसमें जमीन पर एक कमरे का			22.11.2021	सीआईएन : L40103DL2004PLC203950	
	(प्रो. मेसर्स वी केयर फिटनेस) जमानत (I) प्रतीक सिंह,	1384891.47	माप 13 फु. X 30 फु. है। सुपर एरिया 43.33 वर्ग गज भूतल पर, दुकान नंबर 2, दिलशाद गार्डन, ग्राम झिलमिल, ताहिरपुर,		दोपहर 1.00 बजे के दौरान दोपहर		वेबसाइट : www.hondaindiapower.com   ई-मेल : ho.legal@hspp.com दूरभाष : +91-07	11111
द करूर वैश्य बैंक लि. मंदल कार्यालय में ४ वीमरी मंदिल			जिला शाहदरा जिला, दिल्ली।		2.00 बजे तक	तक		1141
(KVB) Karur Vysya Bank Smart way to bank सामने : मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड,	3.         एल-ए/सी-2203 श्रीमती शीतल सिंह	रु.	जिम उपकरण-ट्रेड मिल-4, क्रॉस्ड मिल-2, साइकिल-2,			22.11.2021	एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :	
करोल बाग, नई दिल्ली-110 005	(प्रो. मेसर्स वी केयर फिटनेस) जमानत (I) प्रतीक सिंह,	1384891.47	डीवीआर (होम थिएटर), डंबल-50, मिक्स स्ट्रेन, रिस्ट मशीन वेट-1, बैक स्ट्रेचर-1, 1– बॉक्सिंग बैग (9ए) टू ट्र्स बेल्ट,		दोपहर 1.00 बजे के दौरान दोपहर		1. ईजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों के लेन-देन के लिए होण्डा इण्डिया पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की असाधारण आम	। बैठक
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 [नियम 8(1)]	जमानत (II) मोहित सिंह		डंबल-18, रियर डेलयूपी फ्लाई मैग्नीन-1, फिट लाइन		2.00 बजे तक	तक	बुधवार, 10 नवम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी।	
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन			माशिन-1, हैंगिंग ग्रिल-1, बैंच-2, बॉल स्मॉल-5, बॉल बिग- 2, फंक्शनल (एनएम एक्सटरशन/ आर्म कर्ल 1) मार्क-1 ओ,				2. कंपनी ने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या	
अधानियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंर्तगत द करुर वैश्य बैंक			डुअल फंक्शनल (लेग कर्ल लेग एक्सटेंशन) मशीन-1 शॉर्ट				15 जून, 2020 तथा परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 वि सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरआईपी 2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के साथ पठित	
लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002			डाउन प्रेस लाइन चेस्ट मशीन-1, ड्यूल फंक्शन (फुल डाउन/ लो रो) मशीन-1, लेग प्रेस मशीन-ब्लू नेट-1, बैच प्रेस				संबी परिपत्र स. संबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीएमडी/सीआइआरआइपी 2020/79 दिनाक 12 मई 2020 के सीथ पठि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुसार ईजीएम बुलाने की सूचना 14	
के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए			मशीन–1, इंक्लाइन प्रेस–1, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन–1, वुड्स				को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। ईजीएम	
अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.4.2021 जारी कर ऋणधारकों (1) श्री राजीव कुमार			अलमारी-1, लकड़ी का स्टैंड-1, लकड़ी की मेज-1, जिम				कंपनी की वेबसाइट www.hondaindiapower.com पर, बीएसई और एनएसई की वेबसाइट www.bseir	
संघी, पुत्र रमेश चन्द्र संघी सी-133, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302019; 2) श्रीमती			उत्पाद का डिब्बा-9, अग्निशामक-2, रबर प्लेट-47, लोहे की छड़-11, दीवार पर लटकने वाला पंखा-10, स्टेपर-9, पानी				www.nseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.con पर उपलब्ध है	inara.
सुनीता संघी, पत्नी श्री राजीव कुमार संघी, सी-133, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर-			निकालने की मशीन-1, वॉल क्लॉक-1, एसी (सामान्य)				3. अधिनियम की धारा 108 तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों और	सेबी
302019; 3) श्री संजीव कुमार संघी, रमेश चन्द्र संघी, सी-133, निर्माण नगर, अजमेर रोड,			स्टेबलाइजर-3, स्टेबलाइजर-4, वेइगिहल लिफ्टिंग बेल्ट-7, वैडप-8, व्हील डंबल, दीवार में अलमारी संलग्न करें-1,				दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों अनुसार, सीडीएसएल द्वारा प्रदान किए गए इ	
जयपुर-302019 को सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनो के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु.			इमरजेंसी लाइट-1, फ्लेक्स, कुछ मॉड लिंग और एक बैग				सिस्टम (''ई–वोटिंग'') का उपयोग करते हुए ईजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने क	
7500563.28 (रु. पचहत्तर लाख पाँच सौ तिड़ेसठ एवं पैसे अट्ठाईस मात्र) वापस लौटाने			(प्लास्टिक) सीम मशीन के पुर्जे, टॉयलेट क्लीनर सामग्री–3, एब्डोमिनल बेंच, पेपर वेट, सीसी टीवी कैमरा–3, इन्वर्टर–3 के				को प्रदान की जायेगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार (बुधवार), 03 नवंबर, 2021 (''कट–ऑफ तिथि'') को कंपनी की चुव	कता इ
का निर्देश दिया था।			एल्डामिनल बच, पंपर वट, सांसा टावा कमरा-3, इन्वटर-3 क साथ बैटरी-6, आरओ-1, चेयर-1, वॉशरूम मिरर, फिनाइल				पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।	
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहें, अत एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता			बॉटल-1, इंग्लिश टॉयलेट अटैच-1, माले टॉयलेट-1, शावर-				4. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि (रविवार) 07.11.2021 (सुबह 9.00 बजे भा.मा.स.) को शुरू होगी और (मंगलवार) 09.11.2	
को सूचित किया जाता है कि आज, 13 अक्टूबर, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित	नियम और शर्ते:		1, वॉलफैन-1		2 2	25	बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद	
प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा		र्वे निर्धारित नियमों	और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:			I	रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो ईजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोति	
(4)के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति	1. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति	त्ते का विवरण अधि	कृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए बताया	गया है लेकिन अ	धेकृत अधिकारी इर	स उद्धोषणा में किसी	संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला था और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, ईजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र	
का कब्जा कर लिया है।	भी तुटि, गलत विवरण या चूक के लिए ज			× ~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~		समापन के बाद 15 मिनट तक वोटिंग लाइनें खुली रहेंगी। जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोग ईजीएम में भाग ले सकते हैं/शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।	15 210
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।	<ol> <li>सालबद लिफाफा का प्राधिकृत आधकारा उपलब्ध/इच्छ्क बोलीदाताओं की उपस्थि</li> </ol>		रेटिव बैंक लिमिटेड, 80, दरिया गंज, नई दिल्ली–1100 गा।	02 म सुराक्षत आा	स्तया का उपराक्त	अनुसूचा क अनुसार	्रजारम में मार्ग से सफेत हैं/सामिल हो सफेत है, लोफन दुवारी पोट डालन के हैंफेदोर नहीं होगे। 5. वे सदस्य जिनकी ई–मेल आईडी ई–वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने और अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करने के	के लिग
म आधानयम का धारा 13 को उप–धारा (8) के प्रावधानी के प्रांत आकृष्ट को जाती है। 8) यदि उनके द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे के साथ प्रतिभुत क्रेडीटर के	3. उक्त संपत्ति को ऊपर उल्लिखित आरक्षित	त मूल्य से कम पर	नहीं बेचा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को दिल्ली में				के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे ईजीएम सूचना में वर्णित आवश्यक विवरण और दस्तावेज	
बकाये का प्रतिभूत सम्पत्तियों की बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी			क लिमिटेड के पक्ष में बोली में भाग लेने के लिए पत्न वे				आईडी atho.legal@hspp.com या या आरटीए की ई-मेल आईडी info@masserv.com पर भेजें।	
भी समय पर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री	है। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त ज दिया जाएगा। जमा की गई बयाना राशि प		योजित कर लिया जाएगा, अन्यथा उसी दिन या बाद में ल्योगा।	प्राधिकृत अधिकारी	ि द्वारा तय किए गए	् अनुसार वापस कर	<ol> <li>टीवीए एंड कंपनी, एलएलपी के श्री तनुज वोहरा को ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और</li> </ol>	पारदः
नहीं की जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री या अंतरण के लिये उनके द्वारा कोई कदम			्रगणा सहित) बिक्री के उसी दिन या प्राधिकृत अधिकारी द्वार	ा अनुमत 24 घंटे	के समय के भीतर	जमा करना चाहिए.	जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।	
नहीं उठाया जायेगा।	और शेष बोली राशि यानी 75% बिक्री की		15 दिनों के भीतर जमा करनी चाहिए। चूक की स्थि				7. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hondaindia.com पर और सीडीएसए	
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित	सहित जब्त कर लिया जाएगा। 5 निविदाओं को खोलने के बाद इच्छक बोव	ोळीताताओं को अ	धेकृत अधिकारी के विवेक पर 25,000/– रुपये के गुण	क में मजनन मन्त्र	। तताने के निग अ	गाम में बोकी जगाने	www.evotingindia.com पर अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत र	
सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथ्ज्ञा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु.	<ol> <li>नावदाओं को खालन के बाद, इच्छुक बात का अवसर दिया जा सकता है।</li> </ol>	ાભાવાતાં આ આ, અ	वकृत आवकारा के विवेक पर 25,000/- रुपय के गुण	ाक म प्रस्ताव मूल्य	। बढ़ान कालए ज	।।पस म बाला लगान	8. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन ज	
7500563.28 (रु. पचहत्तर लाख पाँच सौ तिड़ेसठ एवं पैसे अट्ठाईस मात्र) तथा उस पर	6. उच्चतम बोली अधिकृत अधिकारी के अन्						ऑफ तारीख यानी 03 नवंबर, 2021 को शेयर धारण करता है, वह वोट देने का हकदार होगा। रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीड	
ब्याज के लिये द करुर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।		ALTER THE PROPERTY AND ADDRESS	को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी या निविव	ा खोलने को स्थगि	ोत करने या रद्द क	रने और बिना किसी	से पंजीकृत सदस्य अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपना लॉ	
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण			संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की बकाया राशि, जो बैं	क को स्वीकार्य द	ो. उधारकर्ताओं/पति	तेभओं द्वारा/की ओग	गया है तो वह वेबसाइट www.evotingindia.com पर जाकर, फिर Shareholders पर क्लिक करके, यूजर अ	
मिद नं. 1: आवासीय प्लॉट नं. 1541, ऑमैंक्स सिटी, माप लगभग 499.69 वर्ग मी. जयपुर,	से बिक्री की निर्धारित तिथि को या उससे	। पहले किसी भी र	गमय प्रस्तुत की जाती है तो संपत्ति की बिक्री को रद्द वि	<b>फ्या जा सकता है</b> ।		A OF THE OFFICE	वेरीफिकेशन कोड दर्ज करके Forgot Password पर क्लिक करके सिस्टम द्वारा संकेतित विवरण दर्ज कर सकता है। पहली अपने डीमैट खाते में दर्ज आयकर विभाग, जन्म तिथि और लाभांश बैंक विवरण द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा–न्यूमे	
चौहदी:			नेक देय/अटेंडेंट शुल्क/अन्य बकाया क्रेता को वहन क	रना होगा।			अपने डामटे खात में देज आयकर विभाग, जन्म तिथि आरे लोभाश बके विवरण द्वारी जोरी अपनी 10 अकी की अल्फो-न्यूम संकता है। इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, सदस्य "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।	गरक प
	<ol> <li>10. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किय</li> <li>11. बैंक को किसी अन्य भार के बारे में जा</li> </ol>		गेली जमा की गई हैं। धिकृत अधिकारी या बैंक संपत्तियों के संबंध में सरका	र या किसी अन्य व	को शल्क गढणाधि	कार भार या किमी	9. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में प्रश्नों/शिकायतों के मामले में सदस्य कृपया www.evotingindia.com पर डाउनलोड	खण्ड
उत्तरः प्लॉट नं. 1540; दक्षिणः रोड;	अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं हो	होगा। इच्छुक बोली	विकृत जावकारी वो बंक संपतिवों के संबंध न संस्कृ इता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, "				'Frequently asked questions (FAQs) for Members' तथा e-voting manual देखें या 1800-200-5588/02	
पूर्वः प्लॉट नं. 1530; पश्चिमः रोड	पर भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच व				- 10		या श्रवण मंगला, महाप्रबंधक और अनुपालन अधिकारी, मास सर्विसेज लिमिटेड, यूनिटः होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटे	
मद नं. २ः आवासीय प्लॉट नं. १६२५; ब्लॉक नं. ६७, ऑमैंक्स सिटी, सांरगपुरा गांव, जयपुर,		गर कार्ड और पैन	कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति, आवासीय पते का प्रग	नाण, बोलीदाता का	। नाम, मोबाइल नंब	बर और संपर्क नंबर	मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-एच, नई दिल्ली -110020, दूरभाषः- 011-26387281/82/83, फैक्सः-011-263	
चौहदीः	जमा करेगा। 13 बिकी के नियमों और शर्तों पर यदि कोई	ई आगे की मलतान	) हो तो ऊपर उल्लिखित पते पर अधिकृत अधिकारी के	र साथ की ज्या सक	त्नी है।		info@masserv.com, वेबसाइटः www.masserv.com से भी संपर्क कर सकते हैं।	
उत्तरः प्लॉट नं. 1625; दक्षिणः प्लॉट नं. 1627;			ि हो तो ऊपर उल्लाखत पत पर आधकृत आधकारों क त वैधानिक 30 दिनों के नोटिस के रूप में माना जा सन		און פּו		होण्डा इण्डिया पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल	के उ
पूर्वः प्लॉट नं. 1605; पश्चिमः 12 मी. चौडा रोड			गता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्या		वर्चों के साथ ऊपर	उल्लिखित राशि क		
तिथि : 13.10.2021 प्राधिकृत प्राधिकारी	भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति क	की नीलामी/बिक्री व	नी जाएगी और शेष देय राशि, यदि कोई हो, ब्याज औ	र लागत के साथ व	वसूल की जाएगी।		स्थान : नई दिल्ली	Ţ
स्थान : जयपुर द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	दिनांक: 14-10-2021, स्थान:	नई दिल्ली	जी−एम− ∕ प्र	ाधिकृत अधिकार्र	ो जैन को-ऑपरे	टिव बैक लिमिटेड	तिथि : 14 अक्टूबर, 2021	कम

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals	7.	परिसमापक का नाम, पता, ई—मेल पता, दूरभाश संख्या तथा पंजीकरण संख्या	मुनीश कुमार शर्मा पताः एएएफ–14, शिप्रा कृष्णा एजयूर, कौशाम्बी, गाजियाबाद–201012, यूपी ईमेल : munish@mksadvisors.com फोन नं. : 0120-4165725,98185-67143 पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00050/2016-2017/10094
advertising in its newspapers	8	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	13 नयंबर 2021
or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.	रवे आ पनि कि के दा दि	चिठक परिसमापन आरम्भ किया है। रोह फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लि रेसमापक के पास 13 नवंबर 2021 को या इन् लीथ लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक् वे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति द थि : 15 अक्टूबर 2021 परि	

कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ

होने की तिथि।

its contents. The Indian

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

एन आर मैनेजमेंट कंसल्टेंटस

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74140DL2004PTC125243)

जिसका पंजीकृत कार्यालयः 54–55, भवानी

कुंज, सैक्टर ही-2 के पीछे, वसंत कुंज,

नई दिल्ली—110070 में हैं, के मामले में

त्तवद्वारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम. 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है,

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में

स्थानांतरित करने के लिए 08 अक्टूबर 2021 को

आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम जापन में संशोधन

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र

जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का

कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय

निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से

चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी--2 विंग, दूसरा तल,

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-

110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और

इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

हरता /

डीआई एन: 06388055

एन आर मैनेजमेंट कंसल्टेंटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 15.10.2021 **राहल अग्रबाल** (निदेशक)

54—55, मवानी कूंज, सैक्टर डी—2 के पीछे,

पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें।

वसंत कुंज, नई दिल्ली—110070

स्थानः नई दिल्ली

14 अक्टूबर 2021

की पण्टि की मांग की गई है।

....आवैदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

	एआरटा हाउासग फाइनास (इाडया) लिमिटेड (पूर्व में एआरटी एफॉर्डेवल हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड विदित) पंजी. कार्यालय: 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 शाखा कार्यालय: 49, उद्योग विहार, फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा-122015	
विनीय प्रिसम्परि	तयों के प्रतिभतिकरण एवं प्रनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धार 13(2)	ते

ावत्ताय पारसम्पात्तया क प्रातभूातकरण एव पुनानमाण तथा प्रातभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (एम) (iv) के अंतर्गत एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड, एक वित्तीय संस्थान जिसका पंजीकृत कार्यालय 107, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में है (यहां के बाद ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के नाते अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित ऋण खाता संख्या जिसे 31.08.2021 को एनपीए घोषित किया गया था, में वर्तमान सूचना दे रहे हैं।

क्रम सं	ऋण खाता संख्या	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का पता	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का पता	मांग सूचना 13(2) की तिथि	बकाया देयता
1.	LNKTR04917- 180003069	जोगिन्दर एवं रेखा रानी	The second s	•	1 Network Structure Stores of St	रु. 11,21,114/- (रुपये ग्यारह लाख इक्कीस हजार एक सौ चौदह मात्र) 30.9.2021 को।

संबोध्य व्यक्तियों को एतदुद्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा एएचएफएल यह वर्णित प्रतिभुत परिसम्पत्तियों में दी गई प्रतिभुत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभुति हित के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा यह सचना एएचएफएल को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के प्रति उपचार रहित है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (s) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

	हस्ता./-
तिथिः 14.10.2021	प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः कुरुक्षेत्र	एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड

अथवा इसके पूर्व में अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग कीजाती है।	Stat 400 142 12 4144 1 Stor		सुरक्षित आस्तियों की अनुसूची				
भाग का जाता हू । वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार	क. उधारकर्ता का नाम∕ खाता संख्या	30.09.2021 को	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	निरीक्षण की	नीलामी की तिथि	HONDA
अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, ठाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।	सं. और जमानती	वसूली योग्य राशि		बयाना राशि	तिथि और समय	और समय	HUNDA
किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के		+ ब्याज + कानूनी ट्यय					
रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समझ सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का	<ol> <li>एल-ए/सी-10058 श्री (प्रो. मेसर्स</li> </ol>	्यय फ	सी-44, 32 वर्ग गज, छत के अधिकारों के साथ दूसरी मंजिल	र 14 90 000 00	18.11.2021	22.11.2021	होण्डा इंडिया पावर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपञ्च सीए मे निदर्शित करेगा । दावे के फर्जी अश्ववा ग्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंखनीय होगी । हस्ता /—	नीरौन संभव टेक्सटाइल)	3082877.00	और तीसरी मंजिल, गली नंबर 4, उत्तरी छज्जूपुर, इलाका			दोपहर 2.30 बजे	(पूर्व में होण्डा सिएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड)
	जमानत (I) मनोज जैन		शाहदरा, दिल्ली-110094		के दौरान दोपहर		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
दिनांकः 14.10.2021 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, न्यासा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड स्थानः दिल्ली यंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00314/2017-18/10578	जमानत (II) रेणु जैन 2. एल-ए/सी-2203 श्रीमती शीतल सिंह		सम्पत्ति की संख्या डी–216/3 जिसमें जमीन पर एक कमरे का	T 22 42 222 22	12.00 बजे तक 18.11.2021	तक 22.11.2021	पंजीकृत कार्यालय : 409, डीएलएफ टॉवर बी, जसोला कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110025
	2. (प्री. मेसर्स वी केयर फिटनेस)	1384891.47	सम्पत्ति का संख्या डा-216/3 जिसमें जमान पर एक कमर का माप 13 फु. X 30 फु. है। सुपर एरिया 43.33 वर्ग गज भुतल				सीआईएन : L40103DL2004PLC203950
द करूर वैश्य बैंक लि.	जमानत (1) प्रतीक सिंह,		पर, दुकान नंबर 2, दिलशाद गार्डन, ग्राम झिलमिल, ताहिरपुर,		के दौरान दोपहर	से शाम 4.00 बजे	वेबसाइट : www.hondaindiapower.com   ई-मेल : ho.legal@hspp.com दूरभाष : +91-01141082210
			जिला शाहदरा जिला, दिल्ली।		2.00 बजे तक	तक	
KVB         Karur Vysya Bank         मंडल कार्यालय, सं. 6, तीसरी मंजिल,           Smart way to bank           Smart way to bank           करोल बाग, नई दिल्ली–110 005	<ol> <li>एल-ए/सी-2203 श्रीमती शीतल सिंह</li> <li>(प्रो. मेसर्स वी केयर फिटनेस)</li> </ol>	रु. 1384891.47	जिम उपकरण–ट्रेड मिल–4, क्रॉस्ड मिल–2, साइकिल–2, डीवीआर (होम थिएटर), डंबल–50, मिक्स स्ट्रेन, रिस्ट मशीन			22.11.2021 दोपहर 2.30 बजे	एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :
करोल बाग, नई दिल्ली-110 005	जमानत (I) प्रतीक सिंह,	1504071.47	वेट-1, बैक स्ट्रेचर-1, 1- बॉक्सिंग बैग (9ए) टू र्ट्स बेल्ट,	. 1,04,000.00	के दौरान दोपहर		<ol> <li>ईजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों के लेन-देन के लिए होण्डा इण्डिया पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की असाधारण आम बैठक (ईजीएम)</li> </ol>
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 [नियम s(1)]	जमानत (II) मोहित सिंह		डंबल-18, रियर डेलयूपी फ्लाई मैग्नीन-1, फिट लाइन		2.00 बजे तक	तक	बुधवार, 10 नवम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी।
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन			माशिन–1, हैंगिंग ग्रिल–1, बैंच–2, बॉल स्मॉल–5, बॉल बिग– 2. फंक्शनल (एनएम एक्सटरशन/ आर्म कर्ल 1) मार्क–1 ओ.				2. कंपनी ने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक
अंशा फि, वितीय परिसम्पतियों के अतिगूतिकरणे एवं पुनाननांग तथा अतिगूति हित प्रवतन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंर्तगत द करुर वैश्य बैंक			डुअल फंक्शनल (लेग कर्ल लेग एक्सटेंशन) मशीन-1 शॉर्ट				15 जून, 2020 तथा परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020 और
आधानयम् (हिताय) 2002 (2002 के आधानयम् 54) के अतर्गत द करुर वश्य बक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002			डाउन प्रेस लाइन चेस्ट मशीन-1, ड्यूल फंक्शन (फुल डाउन)				सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरआईपी 2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या
लिमिटेड के प्राविकृत आवकारों के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवतन) नियमविली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए			लो रो) मशीन-1, लेग प्रेस मशीन-ब्लू नेट-1, बैच प्रेस मशीन-1, इंक्लाइन प्रेस-1, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन-1, वुड्स				सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुसार ईजीएम बुलाने की सूचना 14 अक्टूबर, 2021 न्हे न्हेन्ज्रेंटिंग्न स्टेन के मर्ग्यूस के न्हू सम्प्रकों न्हे थे है कि के जिसके संस्थान के समय के कि म्हूबर, 2021
क नियम 3 के साथ पठित धोरी 13(12) के अतगत प्रदेत्त शाक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.4.2021 जारी कर ऋणधारकों (1) श्री राजीव कुमार			अलमारी-1, लकड़ी का स्टैंड-1, लकड़ी की मेज-1, जिम				को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। ईजीएम बुलाने की सूचना
अधाहस्ताक्षरा न माग सूचना तिथि 12.4.2021 जारा कर ऋणधारका (1) श्रा राजाव कुमार संघी, पुत्र रमेश चन्द्र संघी सी–133, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर–302019; 2) श्रीमती			उत्पाद का डिब्बा-9, अग्निशामक-2, रबर प्लेट-47, लोहे की				कंपनी की वेबसाइट www.hondaindiapower.com पर, बीएसई और एनएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा
			छड़–11, दीवार पर लटकने वाला पंखा–10, स्टेपर–9, पानी निकालने की मशीन–1, वॉल क्लॉक–1, एसी (सामान्य)				www.nseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.con पर उपलब्ध है
सुनीता संघी, पत्नी श्री राजीव कुमार संघी, सी-133, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर-			स्टिबलाइजर–3, स्टेबलाइजर–4, वेइगिहल लिफ्टिंग बेल्ट–7,				3. अधिनियम की धारा 108 तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धत
302019; 3) श्री संजीव कुमार संघी, रमेश चन्द्र संघी, सी-133, निर्माण नगर, अजमेर रोड,			वैंडप-8, व्हील डंबल, दीवार में अलमारी संलग्न करें-1,				दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों अनुसार, सीडीएसएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग
जयपुर-302019 को सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनो के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु.			इमरजेंसी लाइट-1, फ्लेक्स, कुछ मॉड लिंग और एक बैग (प्लास्टिक) सीम मशीन के पुर्जे, टॉयलेट क्लीनर सामग्री-3,				सिस्टम (''ई–वोटिंग'') का उपयोग करते हुए ईजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा सदस्यों
7500563.28 (रु. पचहत्तर लाख पाँच सौ तिड़ेसठ एवं पैसे अट्ठाईस मात्र) वापस लौटाने			(प्लास्टिक) साम मशान के पुज, टॉयलट क्लानर सामग्रा-3, एब्डोमिनल बेंच, पेपर वेट, सीसी टीवी कैमरा-3, इन्वर्टर-3 के				को प्रदान की जायेगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार (बुधवार), 03 नवंबर, 2021 (''कट–ऑफ तिथि'') को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर
का निर्देश दिया था।			साथ बैटरी-6, आरओ-1, चेयर-1, वॉशरूम मिरर, फिनाइल				पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहें, अत एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता			बॉटल-1, इंग्लिश टॉयलेट अटैच-1, माले टॉयलेट-1, शावर- 1. वॉलफैन-1				4. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि (रविवार) 07.11.2021 (सुबह 9.00 बजे भा.मा.स.) को शुरू होगी और (मंगलवार) 09.11.2021 (शाम 5.00
को सूचित किया जाता है कि आज, 13 अक्टूबर, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित	नियम और शर्तेः		া, বাল্দন-।		3 3		बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा
प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा		२ में निर्धारित नियमों	और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः			I	रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो ईजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से
(4)के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति			वकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए बताया व	गया है लेकिन अ	धिकत अधिकारी इ	स उद्धोषणा में किसी	संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला था और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, ईजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र होंगे। ईजीएम के
का कब्जा कर लिया है।	भी तुटि, गलॅंत विवरण या चूक के लि				c .		समापन के बाद 15 मिनट तक वोटिंग लाइनें खुली रहेंगी। जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ			गरेटिव बैंक लिमिटेड, 80, दरिया गंज, नई दिल्ली−1100	02 में सुरक्षित आर्	स्तियों की उपरोक्त	अनुसूची के अनुसार	ईजीएम में भाग ले सकते हैं/शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।	उपलब्ध/इच्छुक बोलीदाताओं की उप		एगा। : नहीं बेचा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को दिल्ली में	नेग गे ऑर्टा/निग	गंट टगान के गाध	मा मे और किसी भी	<ol> <li>वे सदस्य जिनकी ई-मेल आईडी ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने और अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए डिपॉजिटरी</li> </ol>
8) यदि उनके द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे के साथ प्रतिभूत क्रेडीटर के			्नहां बंचा जाएगा। इच्छुक बालादाताजा का दिल्ला म क लिमिटेड के पक्ष में बोली में भाग लेने के लिए पत्न के				के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे ईजीएम सूचना में वर्णित आवश्यक विवरण और दस्तावेज कंपनी के ई–मेल
बकाये का प्रतिभूत सम्पत्तियों की बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी			योजित कर लिया जाएगा, अन्यथा उसी दिन या बाद में !				आईडी atho.legal@hspp.com या या आरटीए की ई-मेल आईडी info@masserv.com पर भेजें।
भी समय पर भुगतान कर दिया जाता है तो प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री	दिया जाएगा। जमा की गई बयाना रा						<ol> <li>टीवीए एंड कंपनी, एलएलपी के श्री तनुज वोहरा को ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से</li> </ol>
नहीं की जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री या अंतरण के लिये उनके द्वारा कोई कदम			सहित) बिक्री के उसी दिन या प्राधिकृत अधिकारी द्वार				जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
नहीं उठाया जायेगा।	आर शष बाला सांश याना 75% बिक्र सहित जब्त कर लिया जाएगा।	िका पुष्टि का तिथि व	5 15 दिनों के भीतर जमा करनी चाहिए। चूक की स्थिति	1 म, तब तक जम	ना का गइ सभा सा	शया का बयाना साश	7. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hondaindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित		बोलीदाताओं को. अ	धिकृत अधिकारी के विवेक पर 25,000/– रुपये के गुण	क में प्रस्ताव मल्य	य बढाने के लिए अ	गपस में बोली लगाने	www.evotingindia.com पर अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद रखा जाएगा।
सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथ्ज्ञा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु.	का अवसर दिया जा सकता है।	teatranen energiaria antea e		¢			8. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-
7500563.28 (रु. पचहत्तर लाख पाँच सौ तिड़ेसठ एवं पैसे अट्ठाईस मात्र) तथा उस पर	<ol> <li>उच्चतम बोली अधिकृत अधिकारी के</li> </ol>						ऑफ तारीख यानी 03 नवंबर, 2021 को शेयर धारण करता है, वह वोट देने का हकदार होगा। रिमोट ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले
ब्याज के लिये द करुर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।			' को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी या निविद संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।	ा खोलने को स्थगि	गत करने या रद्द क	ज्स्न और बिना किसी	से पंजीकृत सदस्य अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपना लॉगिन पासवर्ड भूल
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण			संशाधित करने का आधकार सुरक्षित रखता है। प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की बकाया राशि, जो बै	क को स्वीकार्य ह	रो उधारकर्ताओं/प	तिभओं दाग/की ओर	गया है तो वह वेबसाइट www.evotingindia.com पर जाकर, फिर Shareholders पर क्लिक करके, यूजर आईडी और इमेज
मिद नं. 1: आवासीय प्लॉट नं. 1541, ऑमैंक्स सिटी, माप लगभग 499.69 वर्ग मी. जयपुर,			समय प्रस्तुत की जाती है तो संपत्ति की बिक्री को रद्द वि				वेरीफिकेशन कोड दर्ज करके Forgot Password पर क्लिक करके सिस्टम द्वारा संकेतित विवरण दर्ज कर सकता है। पहली बार उपयोगकर्त आपने नीजैन जाने में चर्न आपनन जिल्ला जान निषि और नाशर्गण हैंगर निवरण नाम जाने आपना 40 अंगरें चर अन्यत जानेनित जैन
	9. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर अ	गदि सहित सभी वैधा	नेक देय/अटेंडेंट शुल्क/अन्य बकाया क्रेता को वहन क			I	अपने डीमैट खाते में दर्ज आयकर विभाग, जन्म तिथि और लाभांश बैंक विवरण द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा–न्यूमेरिक पैन दर्ज कर समस्य त्रै। का जिसकों को जिसके का के कई करने के सार समय "SUDNUT" तैन पर किन्दा नहें।
चौहदी:	10. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी						सकता है। इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, सदस्य "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
उत्तरः प्लॉट नं. 1540; दक्षिणः रोड;			धिकृत अधिकारी या बैंक संपत्तियों के संबंध में सरका दाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, र				9. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में प्रश्नों/शिकायतों के मामले में सदस्य कृपया www.evotingindia.com पर डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध
पूर्वः प्लॉट नं. 1530; पश्चिमः रोड	अन्य दय शाश के लिए जिम्मदार नह पर भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जां		पाता का राष्ट्राट पा जाता है। के प पंथानिक दनदारिया, र	ଗ୍ୟାଏ କହ୍ୟୁକ ବ୍ୟୁକ୍	તવા, ાબબાલ્ય બભાવ	ा जात्रि साहत संपति	'Frequently asked questions (FAQs) for Members' तथा e-voting manual देखें या 1800-200-5588/022 22728588 पर
मद नं. २ः आवासीय प्लॉट नं. १६२५; ब्लॉक नं. ६७, ऑर्मैंक्स सिटी, सांरगपुरा गांव, जयपुर,	the operation of the second se		कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति, आवासीय पते का प्रम	गण, बोलीदाता क	1 नाम, मोबाइल नं	बर और संपर्क नंबर	या श्रवण मंगला, महाप्रबंधक और अनुपालन अधिकारी, मास सर्विसेज लिमिटेड, यूनिटः होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टी-34, दूसरी
चौहदी:	जमा करेगा।		,	nda. (i)			मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-एच, नई दिल्ली -110020, दूरभाषः- 011-26387281/82/83, फैक्सः-011-26387384, ईमेलः-
उत्तरः प्लॉट नं. 1625; दक्षिणः प्लॉट नं. 1627;			९ हो तो ऊपर उल्लिखित पते पर अधिकृत अधिकारी के		हती है।	I	info@masserv.com, वेबसाइटः www.masserv.com से भी संपर्क कर सकते हैं।
	9		त वैधानिक 30 दिनों के नोटिस के रूप में माना जा सब				होण्डा इण्डिया पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार
पूर्वः प्लॉट नं. 1605; पश्चिमः 12 मी. चौडा रोड	15. ऋणधोरकों/गारंटरों/मार्टगैजरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि क भूगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देय राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसुल की जाएगी।						
तिथि : 13.10.2021 प्राधिकृत प्राधिकारी	3		a contract form a contract many set of the s		~		स्थान : नई दिल्ली सुनीता गंजू
स्थान : जयपुर द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	दिनांक: 14-10-2021, स्था	नः नई दिल्ली	जा−एम− ∕ प्र	॥धकृत आधकार	रा जन का-आपर	टिव बैक लिमिटेड	तिथि : 14 अक्टूबर, 2021 कम्पनी सचिव